



CLASS - VIII HINDI NOTES FOR JUNE (2024-25)

PORTIONS

Chapter 1 – कविता : हिन्दुस्तान हमारा

Chapter 2 – पाठ : परीक्षा

NOTES:

POEM – हिन्दुस्तान हमारा

I. शब्दार्थ [हिंदी और अंग्रेजी]

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. प्रेम - प्यार | love |
| 2. कर्म - कार्य | favour |
| 3. मर्यादा - प्रतिष्ठा | dignity |
| 4. शूल - कांटा | spine |
| 5. सत्य - सच्चाई | truth |
| 6. नदी - सरिता | river |
| 7. सुन्दर - खूबसूरत | beautiful |
| 8. देश - राष्ट्र | country |
| 9. विजय - जीत | victory |
| 10. तपस्या - साधना | asceticism |
| 11. स्वर्ग - देवलोक | heaven |
| 12. दुनिया - संसार | world |

II. सही विकल्प चुनिए :

1. हमारा प्यारा देश है -

उत्तर : हिंदुस्तान

2. भगवान बुद्ध ने कहाँ उपदेश दिया ?

उत्तर : हिंदुस्तान

3. ध्रुव ने कहाँ तपस्या की थी ?

उत्तर : हिंदुस्तान की धरती पर

4. हिंदुस्तान की मिट्टी कैसी है ?

उत्तर : चंदन की तरह

III. कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए :

उत्तर : विजय यही है , यही सिकंदर , हमारा प्यारा , देशों से न्यारा है

IV. प्रश्नोत्तर : [मौखिक]

1. हिंदुस्तान का बाग कैसा है ?

उत्तर : हिंदुस्तान का बाग सुन्दर है ।

2. यहाँ का संबल क्या है ?

उत्तर : यहाँ का संबल सत्य है

V. प्रश्नोत्तर : [लिखित]

1. भारत की धरती पर गंगा कौन ले आया था ?

उत्तर : भारत की धरती पर भागीरथ गंगा लेकर आये थे ।

2. भारत की धरती का कर्म कैसा है ?

उत्तर : भारत की धरती का कर्म कामना रहित है ।

3. भारत की धरती का धर्म कैसा है ?

उत्तर : भारत की धरती का धर्म उज्ज्वल है।

4. भारत की धरती का स्वर्ग कहाँ है ?

उत्तर : भारत की धरती का स्वर्ग कश्मीर है ।

VI. दिए गए शब्दों का वर्ण- विच्छेद कीजिए :

1. विजय = व् + इ + ज् + अ + य् + अ

2. अमर = अ + म् + अ + र् + अ

3. दीप = द् + ई + प् + अ

4. उजाला = उ + ज् + आ + ल् + आ

5. बालक = ब् + आ + ल् + अ + क् + अ

6. तूफान = त् + ऊ + फ् + आ + न् + अ VII. हिंदी शब्दों को उसके अंग्रेजी अर्थ से मिलाइए :

1. विजय - Victory

2. कर्म - favour / work

3. फूल - flower

4. सुंदर - beautiful

5. दुनिया - world

6. प्रेम - love

VIII. शुद्ध वर्तनी पर गोला लगाइए :

विजय, प्रेम, उज्ज्वल, तूफान, चंदन, क्यारी

IX. दिए गए शब्दों का पर्यायवाची लिखिए :

स्वर्ग - जन्नत

बाग - बगीचा

नदी - सरिता

प्रेम - प्यार

दीप - दीपक

देश - राष्ट्र

X. नीचे दी गई कविता के अंश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

1. उत्तर : काँटे के संपर्क में आने से उँगलियाँ घायल हो जाती हैं और कपड़े फट जाते हैं ।

2. उत्तर : काँटा तितलियों से क्रूर व्यवहार करते हुए उनके पंखों को क्षति पहुँचाता है ।

NOTE : Complete all the book back exercises.

पाठ - परीक्षा

I.शब्दार्थ : [हिंदी और अंग्रेजी]

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1.परीक्षा - इम्तिहान | examination |
| 2.बूढ़ा - वृद्ध | old |
| 3.महाराज - राजा | king |
| 4.अवस्था - स्थिति | stage |
| 5.शक्ति - बल | power |
| 6.अनुभवशील - प्रत्यक्ष ज्ञान | experienced |
| 7. सहानुभूति - हमदर्दी | sympathy |
| 8.कमजोर - दुर्बल | weak |
| 9. आदर - सम्मान | respect |
| 10.प्रार्थना - विनती | prayer |
| 11.विज्ञापन - सूचना | advertisement |
| 12.जौहरी - जवाहरात परखने वाला | jeweller |
| 13. मैदान - खेत | plane |
| 14. पहिया - चक्का | wheel |
| 15. सहायक - मददगार | assistant |
| 16. बैल - एक पशु | ox |
| 17. उदारता - दयालुपन | leniency |
| 18. संदेह - शंका | suspicious |

II. सही विकल्प चुनिए :

1. सुजानसिंह किस रियासत के दीवान थे ? उत्तर : देवगढ़
2. यह विज्ञापन कहाँ निकाला गया था ? उत्तर : अखबारों में
3. किसान की गाड़ी किस चीज़ से भरी हुई थी ? उत्तर : अनाज से
4. दयालु मनुष्य को हॉकी खेलते वक़्त कहाँ चोट लगी थी ? उत्तर : पैर में

III. प्रश्नोत्तर : [मौखिक]

1. देवगढ़ की रियासत के दीवान का नाम क्या था ?
उत्तर : देवगढ़ की रियासत के दीवान का नाम सरदार सुजानसिंह था ।
2. दीवान जी किसकी खोज कर रहे थे ?
उत्तर : दीवान जी रियासत के लिए नए दीवान की खोज कर रहे थे ।
3. किसान की गाड़ी कहाँ फँस गई थी ?
उत्तर : किसान की गाड़ी नाले में फँस गई थी ।

IV. प्रश्नोत्तर : [लिखित]

1. सुजानसिंह अपनी दीवानी क्यों छोड़ना चाहते थे ?
उत्तर : सुजानसिंह वृद्धावस्था के कारण अपनी दीवानी छोड़ना चाहते थे ।
2. राजा साहब अपने दीवान का आदर क्यों करते थे ?
उत्तर : दीवान अनुभवी और नीतिकुशल थे , इसलिए राजा साहब उनका आदर करते थे ।
3. युवक ने किसान की तरफ़ देखकर क्या कहा था ?
उत्तर : युवक ने किसान की तरफ़ देखकर कहा कि मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूँ ।
4. सरदार सुजानसिंह ने जानकीनाथ के बारे में क्या बातें बताई ?
उत्तर : सरदार सुजानसिंह ने जानकीनाथ के बारे में बताया कि उसके हृदय में साहस ,
आत्मबल और उदारता का वास है । ऐसा आदमी गरीबों को कभी नहीं सताएगा ।

V.इन समुच्चयबोधक शब्दों से वाक्य बनाइए:

लेकिन - वह प्ररिश्रमी है लेकिन प्रतिभाशाली नहीं है ।

या - आप इडली या डोसा खा सकते हैं ।

किंतु - आप आए किंतु आपने किसी प्रकार से मेरी मदद नहीं की ।

और - गोविंद गीत गा रहा है और रागिनी नाच रही है ।

VI .नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए :

राजा - रानी

युवक - युवती

बूढ़ा - बुढ़िया

पुरुष - महिला

बैल - गाय

ठाकुर - ठकुराइन

VII. 'अन' और 'अध' उपसर्ग से बनने वाले तीन - तीन शब्द बनाइए :

'अन' - अनजान , अनमोल , अनपढ़

'अध' - अधपका , अधखिला , अधमरा

NOTE : Complete all the book back exercises.
